

## ग्राम रक्षा समितियों का पुनरुद्धार

हाल के आतंकवादी हमलों के बीच जम्मू-कश्मीर के [उपराज्यपाल \(Lieutenant Governor\)](#) ने ग्राम रक्षा समितियों (Village Defence Committees- VDC) को पुनर्स्थापित करने की घोषणा की है।

### क्या हैं VDC?

#### परिचय:

- VDC की स्थापना 1990 के दशक के मध्य [आतंकवादी हमलों](#) के खिलाफ बल गुणक/फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य [दूरदराज़ के पहाड़ी गाँवों के निवासियों को हथियार मुहैया कराना](#) और उन्हें अपनी रक्षा के लिये हथियारों का प्रशिक्षण देना था।

#### VDCs स्थापित करने की आवश्यकता:

- [कश्मीर में वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ आतंकवाद](#) वर्ष 1990 के दशक के मध्य तक पास के डोडा ज़िले में फैल गया था।
  - वर्ष 1993 में [कश्तिवाड](#) में 13 लोगों के नरसंहार के बाद पहली बार नागरिक आबादी को हथियार देने की मांग उठी।
- [गृह मंत्रालय ने 1995 में VDCs स्थापित करने का फैसला लिया](#)। बाद में इस योजना का विस्तार जम्मू संभाग के अन्य इलाकों में भी किया गया क्योंकि आतंकवादियों ने [उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, कटुआ और सांबा ज़िलों](#) तक अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी थीं।

#### योगदान:

- जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से [चनिब घाटी](#) और [पीर पंजाल क्षेत्रों](#), उधमपुर की पहाड़ियों तथा रियासी और कटुआ ज़िलों में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान VDCs ने आतंकवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - ये उन क्षेत्रों में आतंकवादियों के मध्य सर्वाधिक भयावह सशस्त्र समूह थे जहाँ [खराब सड़क नेटवर्क के कारण सुरक्षा बलों के आगमन में देरी होती थी](#)।
- [स्थानीय क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित ग्रामीणों ने कई](#) आतंकवादियों को हमले करने से रोकने और उन्हें पकड़ने तथा मारने में मदद की।

#### संबंधित समस्याएँ:

- सफलताओं के साथ-साथ, VDC को [मानवाधिकारों के उल्लंघन](#) और हत्या, बलात्कार एवं जबरन वसूली जैसे अपराधों के आरोपों का भी सामना करना पड़ा।

#### हालिया विकास:

- VDCs का नाम बदलकर अब [ग्राम रक्षा गार्ड \(Village Defence Guards- VDG\)](#) कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में VDG स्थापित करने की नई योजना को [मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित](#) किया गया था।
- VDG संबंधित ज़िले के [वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक \(SSP\)/पुलिस अधीक्षक \(SP\)](#) के निर्देशन में काम करेंगे।
- VDC और VDG में समानताएँ तथा अंतर:
  - [समानता](#): VDC सदस्य की तरह, [प्रत्येक VDG को एक बंदूक और 100 राउंड गोला बारूद](#) प्रदान किया जाएगा।
  - [अंतर](#): नई योजना के तहत [VDG का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 4,500 रुपए](#) का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य को 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
    - VDC में केवल नेतृत्व करने वाले [वर्षिष्ठ पुलिस अधिकारियों \(SPOs\)](#) को [1,500 रुपए मासिक](#) पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था।

### [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)